



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30--सितम्बर 5, 2003 (भाद्रपद 8, 1925)  
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 30--SEPTEMBER 5, 2003 (BHADRA 8, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग III—खण्ड 1]

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices  
of the Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 अगस्त 2003

सं. डीपी/एडी. 5/2003/03/33/3/25/2003-प्रशा. 5--निदेशक,  
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने श्री एन.के. तिवारी, अपराध सहायक, के.अ.  
ब्यूरो को 23.07.2003 पूर्वाह्न से कार्यालय अधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण  
ब्यूरो के ग्रेड में नियुक्त किया है।

एस.डी.बैजल,  
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

17 अगस्त 2003

डीपी एडी. 5/2003/03/33/3/22/2003-प्रशा. 5--राष्ट्रपति ने  
श्री एच. कन्नडा, लोक अभियोजक, कर्नाटक सरकार को  
09.08.2003 आदेश तक के अ. ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति

की मानक शर्तों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर लोक अभियोजक के रूप  
में नियुक्ति किया है।

एस.डी.बैजल,  
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

गृह मंत्रालय  
(न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अगस्त 2003

सं. 21/13/2002-प्रशा. (एफ.एस.)--राष्ट्रपति, श्री दीपक  
मिड़हा, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विस्फोटक) केन्द्रीय न्यायालयिक  
विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ को दिनांक 25.7.2003 (पूर्वाह्न) से वेतनमान  
रुपये 8,000-275-13,500/- में पदोन्नति पर केन्द्रीय न्यायालयिक  
विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II  
(विस्फोटक) के पद पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त करते हैं।

डा. एम.एस. राव  
निदेशक (एफ.एस.)

(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 08 अगस्त 2003

सं. ओ.दो. 3631/03-सी.आर.सी.-एम.ओ.--राष्ट्रपति जी, डॉ. राजकमल गुप्ता, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक के. रि.पु. बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 02.07.2003 (पूर्वाह) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें कम्पोजिट अस्पताल, केरिपुबल, जम्मू में तैनात किया जाता है।

मान सिंह रावत  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ.दो. 3632/03-सी.आर.सी.-एम.ओ.--राष्ट्रपति जी, डॉ. रजनीश रंजन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक के. रि.पु. बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 21.07.2003 (पूर्वाह) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें सिंगनल युप केन्द्र, केरिपुबल, रांची में तैनात किया जाता है।

मान सिंह रावत  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ.दो. 3633/03-सी.आर.सी.-एम.ओ.--राष्ट्रपति जी, डॉ. धर्मेन्द्र कुमार वर्मा, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक के. रि.पु. बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 24.07.2003 (पूर्वाह) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 125 बटालियन, केरिपुबल, में तैनात किया जाता है।

मान सिंह रावत  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

(कार्यालय: महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 18 अगस्त 2003

प्रशा.-1/का.आ.सं. 35--इस कार्यालय के श्री बलदेव राज, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी वार्धक्य आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 31.08.2003 (अपराह) को भारत सरकार की सेवा से सेवा निवृत्त हो जाएंगे।

उनकी जन्म तिथि 13.08.1943 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 15.12.1966 (अपराह) है।

क. प्रसाद  
निदेशक (प्रशासन)

रक्षा लेखा विभाग

(कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 11 अगस्त 2003

सं. प्रशा.-1/1467/5/1(जी)--भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके जन्म की तारीख के नीचे दिखाई

गई तारीख को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर, रक्षा लेखा विभाग के संख्याबल से हटा दिया गया है तथा तदनुसार प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई तारीख को पेंशन स्थापना के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है:--

क्रम सं.	नाम	जन्म की तारीख	पेंशन स्थापना की तारीख
सर्वश्री			
1.	सतीश चन्द्र	25.07.1943 31.07.2003	01.08.2003
2.	खचेरू सिंह	04.07.1943 31.07.2003	01.08.2003
3.	टी. एन. जयारमन	12.07.1943 31.07.2003	01.08.2003
4.	भूप सिंह	15.07.1943 31.07.2003	01.08.2003
5.	एच. आर. अरोरा	11.07.1943 31.07.2003	01.08.2003
6.	हुकम सिंह	03.07.1943 31.07.2003	01.08.2003
7.	एस. पी. अस्थाना	02.07.1943 31.07.2003	01.08.2003
8.	हरि राम	16.07.1943 31.07.2003	01.08.2003
9.	हरकेश सिंह	15.07.1943 31.07.2003	01.08.2003
10.	एस. जे. मीर पागर	07.07.1943 31.07.2003	01.08.2003
11.	ईश्वर दयाल	06.07.1943 31.07.2003	01.08.2003

कुप्पास्वामी

रक्षा लेखा सहा. महानियंत्रक (प्रशा.)

लघु उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2003

सं. ए-19018/1675/2003-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (लघु उद्योग), विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली में लघु उद्योग संवर्द्धन अधिकारी (यांत्रिकी), श्री के.सी. प्रभाकर को लघु उद्योग विकास संगठन अंतर्गत रु. 6500-200-10500 के वेतनमान में विस्तार केन्द्र, बाल सहयोग (अधीन लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली) में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (यांत्रिकी) स्थापनापन आधारित के पद पर दिनांक 01.07.2003 (पूर्वाह) से अगस्त आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वि. एन. पिल्लै  
उप निदेशक (प्रशा.)

## भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

(कार्मिक प्रभाग)

मुंबई-400 085, दिनांक 08 अगस्त 2003

सं. पीडी/12(1)/2003-आर-III/11093--नियंत्रक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री पी एम् मैथ्यू, सहायक लेखाकार, भापअ केन्द्र को दिनांक 11 जून 2003 (पूर्वा) से 18 जुलाई 2003 (अप.) तक रु. 6500-200-10500 के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन  
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

(नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र)

हैदराबाद-500 062, दिनांक 16 अगस्त 2003

सं. नाईस/काप्रभ-II/2-2003/353--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि एवं ग्रेड में आगामी आदेशों पर्यन्त स्थापनापन्न हैसियत में इसी इकाई में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति ग्रेड से	पदोन्नति की तारीख ग्रेड में	5
1	2	3	4	5

(सर्वश्री/श्रीमती)

वैज्ञानिक अधिकारी/ई का वेतनमान रु. 12000-375-16500

01.	डॉ. जे. विजय राव	वैज्ञा.अधि/डी	वैज्ञा.अधि/ई	01.02.2003
02.	पी. गायत्री राघवन	"	"	01.02.2003
03.	सहदेव प्रसाद	"	"	01.02.2003
04.	एस. पी. जया	"	"	01.02.2003
05.	आर. मुथयालू	"	"	01.02.2003
06.	वाई. सुब्रह्मण्यम	"	"	01.02.2003
07.	एस. पी. जगन्नाथ प्रसाद	"	"	01.02.2003
08.	एन. भरत राज	"	"	01.02.2003
09.	पी. ए. गोपीनाथन	"	"	01.02.2003
10.	के. लक्ष्मण राव	"	"	01.02.2003
11.	दर्शन सिंह	"	"	03.02.2003
12.	जे. एस. पाल	"	"	03.02.2003

वैज्ञानिक अधिकारी/डी का वेतनमान रु. 10000-325-15200

01.	के. सुंदर कृष्णा	वैज्ञा.अधि/सी	वैज्ञा.अधि/डी	01.02.2003
02.	एस. सुब्बा राव	"	"	01.02.2003
03.	बी. एफ. प्रकाशम	"	"	01.02.2003
04.	बी. एस. एन. मूर्ति	"	"	01.02.2003
05.	एल. लिंगय्या	"	"	01.02.2003
06.	जी. सीतापति नायडू	"	"	01.02.2003

1	2	3	4	5
07.	के. उमामहेश्वर राव	"	"	01.02.2003
08.	ए. सोमशेखर राव	"	"	01.02.2003
09.	ए. कै. जी. शर्मा	"	"	01.02.2003
10.	सी. दशरथ	"	"	01.02.2003
वैज्ञानिक अधिकारी/सी का वेतनमान रु. 8000-275-13500				
01.	के. आर. सुब्रह्मण्यम	वैज्ञा.अधि/एस-बी	वैज्ञा.अधि/सी	01.02.2003
02.	जी. निवास राव	"	"	01.02.2003
03.	के. कृष्णा मोहन	"	"	01.02.2003
04.	आर. हनुमन्त राव	"	"	01.02.2003
				जी. कोटेश्वर राव प्रशासनिक अधिकारी

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रेसिल केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 18 अगस्त 2003

सं. एल. सी. (560) एस.ई.एस.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रेसिल केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

डी. आर. चतुर्वेदी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नेहा होस्टीकल्चरिस्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474 009, दिनांक 18 अगस्त 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी/9619/धारा 560 (3)/1487--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से 3 (तीन) मास की समाप्ति पर मैसर्स नेहा होस्टीकल्चरिस्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

नौबत सिंह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
मध्य-प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स काबेरी एग्रीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474 009, दिनांक 18 अगस्त 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी/9616/धारा 560 (3)/1490--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से 3 (तीन) मास की समाप्ति पर मैसर्स काबेरी एग्रीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

नौबत सिंह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
मध्य-प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सृष्टि प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474 009, दिनांक 18 अगस्त 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी/9611/धारा 560 (3)/1493--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा

सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से 3 (तीन) मास की समाप्ति पर मैसर्स सृष्टि प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

नौबत सिंह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
मध्य-प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निवेदिता गार्डनिंग एण्ड लैण्डस्केपिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474 009, दिनांक 18 अगस्त 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी/9615/धारा 560 (3)/1496--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से 3 (तीन) मास की समाप्ति पर मैसर्स निवेदिता गार्डनिंग एण्ड लैण्डस्केपिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

नौबत सिंह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
मध्य-प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 8th August 2003

No. DPAD5/2003/03133/3/25/2003-AD.V.—Director, Central Bureau of Investigation is pleased to appoint Shri N.K. Tewari, Crime Assistant, CBI in the grade of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 23.07.2003.

S.D. BAIJAL  
Admn. Officer (Estt.)

The 17th August 2003

No. DPAD5/2003/03214/3/22/2003-AD.V.—The President is pleased to appoint Shri M. H. Kabadi, Asstt. Public Prosecutor, Govt. of Karnataka as Public Prosecutor in the CBI on deputation basis on Standard Terms of Deputation, with effect from the forenoon of 9.7.2003 and until further orders.

S.D. BAIJAL  
Admn. Officer (Estt.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE)

New Delhi-110003 the 14th August 2003

No. 21/13/2002-Adm (FS)—The President is pleased to appoint Shri Deepak Middha, Junior Scientific Officer (Explosive), Central Forensic Science Laboratory, Chandigarh as Senior Scientific Officer Grade-II (Explosive) in the Central Forensic Science Laboratory, Chandigarh on promotion in an officiating capacity with effect from 25.07.2003 (forenoon) in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/-.

DR. M.S. RAO  
Dir. (FS)

(DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL RESERVE  
POLICE FORCE)

New Delhi-110003, the 8th August 2003

No. O. II-3631/03-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Raj Kamal Gupta as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 02.07.2003 till further order. He is posted to Composite Hospital, CRPF, Jammu.

MAN SINGH RAWAT  
Addl. DIGP (Pers.I)

No. O. II-3632/03-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Rajnish Ranjan as Medical Officer in Central

Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 21.07.2003 till further order. He is posted to SGC, CRPF, Ranchi.

MAN SINGH RAWAT  
Addl. DIGP (Pers.I)

No. O. II-3633/03-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Dharmendra Kumar Verma as Medical Officer in Central Reserve Police Force in Temporary capacity from the forenoon of 24.07.2003 till further order. He is posted to 125 BN, CRPF.

MAN SINGH RAWAT  
Addl. DIGP (Pers.I)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT  
CENTRAL REVENUES)

New Delhi-110002, the 18th August 2003

Admn.I/O.O. No.—35—Consequent upon attaining the age of superannuation, Sh. Baldev Raj, Sr. Audit Officer of this office will be retiring from the service of the Govt. of India on 31.08.2003 (AN).

His date of birth is 13.08.1943 and date of joining Government Service is 15.12.1966 (AN).

Sd/- ILLEGIBLE  
Dir. (Admn.)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT  
(OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF  
DEFENCE ACCOUNTS)

New Delhi-66, the 11th August 2003

No. AN-1/1467/5/1(G).—The under-mentioned officers of the Indian Defence Accounts Service, who have attained the age of superannuation on the date shown below their date of birth have been struck off the strength of the Defence Accounts Department and accordingly transferred to the Pension Establishment with effect from the dates shown against each :—

Sl. No.	Name	Date of Birth/ Date of retirement	Date on which transferred to the Pension Establishment
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	Satish Chandra	25.07.1943 31.07.2003	01.08.2003
2.	Khacheru Singh	04.07.1943 31.07.2003	01.08.2003

1	2	3	4
	S/Shri		
3.	T.N. Jayaraman	12.07.1943 31.07.2003	01.08.2003
4.	Bhoop Singh	15.07.1943 31.07.2003	01.08.2003
5.	H. R. Arora	11.07.1943 31.07.2003	01.08.2003
6.	Hukam Singh	03.07.1943 31.07.2003	01.08.2003
7.	S.P. Asthana	02.07.1943 31.07.2003	01.08.2003
11.	Haria Ram	16.07.1943 31.07.2003	01.08.2003
9.	Harkesh Singh	15.07.1943 31.07.2003	01.08.2003
10.	S.J. Mir Pagar	07.07.1943 31.07.1943	01.08.2003
11.	Ishwar Dayal	06.07.1943 31.07.2003	01.08.2003

KUPPASWAMY

Asstt. Controller Gen. of Defence Accounts (Admn.)

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES  
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 13th August 2003

No. A-19018/1675/2003-Admn(G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Shri K.C. Prabhakar, Small Industry Promotion Officer (Mechanical), Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi as Assistant Director (Grade II) (Mechanical) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in Extension Centre, Bal Sahyog (under Small Industries Service Institute, New Delhi) with effect from the forenoon of 01.07.2003 until further orders.

S.V. N. PILLAI

Dy. Director (Admn.)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE  
(PERSONNEL DIVISION)

Mumbai-400085, the 8th August 2003

No. PD/12(1)/2003-R-III/1093.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri P. M. Mathew, Asstt. Accountant, B.A.R.C. as Asstt. Accounts Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the scale of pay of

Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 11-06-2003 (FN) to 18.07.2003 (AN).

K. C. DIVAKARAN  
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY  
(NUCLEAR FUEL COMPLEX)

Hyderabad-500062, the 16th August 2003

No. NFC/PAR-II/2-2003/353.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in the grades and with effect from the dates indicated against each in the same unit, in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name	Promotion From Grade	To Grade	Date of Promotion
1	2	3	4	5

Scale of Pay of SO/E—Rs. 12,000-375-16,500

	S/Shri/Smt.			
01.	Dr. J. Vijay Rao	SO/D	SO/E	01-02-2003
02.	P. Gayathri Raghavan	"	"	01-02-2003
03.	Sahadeo Prasad	"	"	01-02-2003
04.	S. P. Jaya	"	"	01-02-2003
05.	R. Muthyalu	"	"	01-02-2003
06.	Y. Subrahmanyam	"	"	01-02-2003
07.	S. P. Jagannath Prasad	"	"	01-02-2003
08.	N. Bharath Raj	"	"	01-02-2003
09.	P. A. Gopinathan	"	"	01-02-2003
10.	K. Laxman Rao	"	"	01-02-2003
11.	Darshan Singh	"	"	13-02-2003
12.	J. S. Pal	"	"	13-02-2003

Scale of Pay of SO/D Rs. 10,000-325-15,200

01.	K. Sunder Krishna	SO/C	SO/D	01.02.2003
02.	S. Subba Rao	"	"	01-02-2003
03.	B. F. Prakasham	"	"	01-02-2003
04.	B. S. N. Murthy	"	"	01-02-2003
05.	L. Lingaiah	"	"	01-02-2003
06.	G. Seethapathi Naidu	"	"	01-02-2003
07.	K. Umamaheswara Rao	"	"	01-02-2003
08.	A. Somasekhara Rao	"	"	01-02-2003

1	2	3	4	5
09.	A. K. G. Sharma	SO/C	SO/D	01-02-2003
10.	C. Dasaratha	"	"	01-02-2003
Scale of Pay of SO/C Rs. 8,000-275-13,500				
01.	K. R. Subramanyam	SO/SB	SO/C	01.02.2003
02.	G. Srinivasa Rao	"	"	01-02-2003
03.	A. Krishna Mohan	"	"	01-02-2003
04.	R. Hanumanth Rao	"	"	01-02-2003

G. KOTESWARA RAO  
Administrative Officer

MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)  
OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Presil Chemicals Private Limited.

Kanpur-208001, the 18th August 2003

No. 560(5)/LC/SES/9164/1428.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Presil Chemicals Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

D. R. CHATURVEDI  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Neha Horticulturist Private Limited.

Gwalior-474009, the 18th August 2003

No. ROC-G/9619/Sec. 560(3)/2003/1487.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Neha Horticulturist Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

NAUBAT SINGH  
Registrar of Companies  
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kaveri Agriculture Private Limited.

Gwalior-474009, the 18th August 2003

No. ROC-G/9616/Sec. 560(3)/2003/1490.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Kaveri Agriculture Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

NAUBAT SINGH  
Registrar of Companies  
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Srusti Properties Private Limited.

Gwalior-474009, the 18th August 2003

No. ROC-G/9611/Sec. 560(3)/2003/1493.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Srusti Properties Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

NAUBAT SINGH  
Registrar of Companies  
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nivedita Gardening and Landscaping Private Limited.

Gwalior-474009, the 18th August 2003

No. ROC-G/9615/Sec. 560(3)/2003/1496.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Nivedita Gardening and Landscaping Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

NAUBAT SINGH  
Registrar of Companies  
Madhya Pradesh & Chhattisgarh